



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 दिसम्बर, 2022

पौष 5, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 1059/23-2-2022-57(सा0)-22

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-1017

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला जौनपुर में गोमती नदी के अचला देवी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित सीमाओं के भीतर जिला जौनपुर में अचला देवी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला जौनपुर में अचला देवी घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर स्थित परगना का नाम	नदी के दोनों ओर स्थित ग्रामों के नाम	नदी, जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
जौनपुर	जौनपुर-सदर जौनपुर-सदर	1-सिपाह 2-मियांपुर	गोमती नदी	जिला जौनपुर के अन्तर्गत अचला देवी घाट एवं मियांपुर के बीच सम्पर्क मार्ग के आगे गोमती नदी पर पान्टून सेतु का निर्माण कार्य

नौघाट की सीमा				
नौघाट की श्रेणी	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10
—	सद्भावना घाट	1.00 कि०मी०	रामघाट	2.50 कि०मी०

आज्ञा से,  
अजय चौहान,  
सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1059/XXIII-2-2022-57(SA.)-22, dated December 26, 2022 for general information :

No. 1059/XXIII-2-2022-57(SA.)-22

*Dated Lucknow, December 26, 2022*

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Gomti River Achala Devi Ghat in district Jaunpur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Achala Devi Ghat in district Jaunpur within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Achala Devi Ghat in district Jaunpur shall vest in the Superintending Engineer, Jaunpur-Ghazipur Circle, Lok Nirman Vibhag, Jaunpur.

#### SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both banks of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Jaunpur	Jaunpur-Sadar Jaunpur-Sadar	1. Sepah 2. Miyapur	Gomti River	Construction work of Pontoon Bridge on Gomti River ahead of the contact Road between Achala Devi Ghat and Miyapur under district Jaunpur

Limit of Ferry				
Class of Ferry	Up stream	Distance	Down stream	Distance
6	7	8	9	10
—	Sadbhavana Ghat	1.00 Km.	Ram Ghat	2.50 Km.

By order,  
AJAY CHAUHAN,  
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1116 राजपत्र-2022-(1797)-599+50+5=654 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।